



**क्षतिपूर्ति:** नीचे हस्ताक्षर करके, आवेदक एतद्वारा नेबरहुड ब्लॉक पार्टी से जुड़े व्यक्तिगत चोट, या संपत्ति के नुकसान या किसी भी प्रकार की क्षति के कारण, जो किसी भी तरीके से उत्पन्न हो या हुआ हो या उससे जुड़ा होने का दावा किया जाए, शहर, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की और सभी देयता, क्षति, हानि, दावों, माँगों और किसी भी स्वरूप के कार्यों के लिए पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करता, बचाता, और हानिरहित रखता है।

**अभिस्वीकृति:** नीचे हस्ताक्षर करके, मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए आरेख में वे सभी आइटम शामिल हैं जिन्हें सार्वजनिक मार्ग पर रखा जाएगा। मैंने नेबरहुड ब्लॉक पार्टी की निम्नलिखित अपेक्षाओं को पढ़ा, समझा है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। शहर की संपत्ति का उपयोग इन आवश्यकताओं के पालन पर निर्भर है, ऐसा करने में विफल होने पर शहर की संपत्ति का उपयोग करने और कार्यक्रम की मेजबानी करने की मेरी क्षमता रद्द की जा सकती है।

- सार्वजनिक मार्ग (साइडवॉक और सड़क) पर कानूनी रूप से शराब का सेवन नहीं किया जा सकता है।
- बाउंस हाउस/कैज़ल निजी संपत्ति पर होने चाहिए और उन्हें सार्वजनिक मार्ग पर स्थापित नहीं किया जा सकता है।
- स्थानीय और आपातकालीन पहुँच की अनुमति देने के लिए प्रत्येक अवरोधित छोर को सुरक्षा वेस्ट पहने हुए मॉनिटर के सुपुर्द किया जाना चाहिए।
- ऑस्टिन फ़ायर डिपार्टमेंट को आपातकालीन उपयोग के लिए खाली अबाधित लेन की आवश्यकता है। चौड़ाई की आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं:
  1. यदि आपातकालीन लेन को घटाकर 15' कर दिया जाता है तो पहुँच के लिए सड़क के दोनों सिरों के लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में यह ऐसी सड़क पर नहीं होनी चाहिए, जिसके दोनों सिरों पर कनेक्टिविटी न हो। बिना कनेक्टिविटी वाले मामलों में न्यूनतम 25' होनी चाहिए।
  2. स्ट्रीट पार्किंग तभी बनी रह सकती है जब पूरी तरह खाली रास्ते की चौड़ाई 25' हो।
  3. जहाँ बिल्डिंग 3 मंजिला या ऊँचे हों, वहाँ पूरी तरह खाली रास्ते की चौड़ाई 25' होनी चाहिए।
  4. चर्च और स्कूल के क्लोज़र के साथ-साथ कमशियल एरिया के क्लोज़रों को हर समय आपातकालीन पहुँच के लिए 25' चौड़ाई वाले पूरी तरह खाली सड़क बनाए रखना होगा।